



# AnandNiketan

## Maninagar Campus

कक्षा : IX	विषय : हिंदी	Syllabus: गद्य -2,3,4,6,7,8 पद्य- 9,10,11,12,14,15 संचयन- 1,2,4,6 व्याकरण- वर्ण-विच्छेद, अनुस्वार,अनुनासिक, नुक्ता , उपसर्ग-प्रत्यय, विराम चिह्न,संधि
दिनांक : / / 2020	Empower- II Assignment	

### खंड - 'क'

१. निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। (९)

बड़ी चीज़े बड़े संकटों में विकास पाती हैं, बड़ी हस्तियाँ बड़ी मुसीबतों में पलकर दुनिया पर कब्ज़ा करती हैं। अकबर ने तेरह साल की उम्र में अपने बाप के दुश्मन को परास्त कर दिया था। जिसका एक मात्र कारण यह था कि अकबर का जन्म रेगिस्तान में हुआ था और वह भी उस समय, जब उसके बाप के पास एक कस्तूरी को छोड़कर और कोई दौलत नहीं थी। महाभारत में देश के अधिकांश वीर कौरवों के पक्ष में थे, मगर फिर भी जीत पांडवों की हुई, क्योंकि उन्होंने लाक्षागृह की मुसीबत झेली थी, क्योंकि उन्होंने वनवास के जोखिम को पार किया था। साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ऐसी जिन्दगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिलकुल निडर और बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है और मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है।

- (i) “ बड़ी चीज़े बड़े संकटों में विकास पाती हैं” सिद्ध कीजिए ?
- (ii) महाभारत के युद्ध में किसकी जीत हुई और क्यों ?
- (iii) ‘अधिकांश’ शब्द का संधि विग्रह कर संधि का नाम भी लिखिए।  
‘मनुष्यता’ और ‘बेखौफ’ शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय दर्शाइए।
- (iv) दुनिया की असली ताकत किस प्रकार के मनुष्य में है ? कैसे
- (v) साहसी मनुष्य किस प्रकार निश्चिंत रहता है ?

## खंड - ख

### व्यावहारिक व्याकरण

प्रश्न २. (क) निम्नलिखित शब्दों का वर्ण-विच्छेद कीजिए ।

विद्यार्थी, प्रतीक्षालय, अभिव्यक्ति, कर्मण्य, दृष्टिकोण

(ख) उचित स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करते हुए मानक रूप लिखिए ।

सरक्षण , बाग्लादेश , जनसख्या, सस्कृति ,

(ग) उपयुक्त स्थान पर अनुनासिक का प्रयोग कीजिए ।

धुधला , बनाऊगा , झोपड़ी , गाठ , युक्तिया

(घ) उपयुक्त स्थान पर नुक्ते का प्रयोग कीजिए ।

जनाजा , बर्फ , जहाज , फरेब, फ्रॉक

प्रश्न ३.(क) निम्नलिखित शब्दों में मूल शब्दों व उपसर्गों / प्रत्ययों को अलग-अलग करके

लिखिए-

बावजूद , सहानुभूति , मानवीयता , राष्ट्रीयता , अभिमान

(ख) निम्नलिखित वाक्यों में उपयुक्त स्थान पर सही विराम चिह्न लगाइए -

१. नाटक समाप्त हुआ , दर्शक चले गए
२. नहीं मैं यह नहीं कर सकता
३. जयशंकर प्रसाद ने कामायनी की रक्षा की
४. धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का
५. वह ईमानदार मैं नहीं मान सकता

प्रश्न ४. (क) निम्नलिखित शब्दों में संधि कीजिए ।

व्यूह , सीमान्त , वागीश , संशय , निर्यात , दुस्सासन

(ख) निम्नलिखित शब्दों में संधि - विच्छेद कीजिए ।

पर्वत + आरोही , निः + कपट, शरत् + चन्द्र, प्रति + अक्ष , उत् + लेख

## खंड - ग

५. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए ।

- (i) डॉ. मीनू मेहता ने क्या जानकारीयाँ दीं ?
- (ii) महादेव भाई की अकाल मृत्यु का कारन क्या था ?
- (iii) चालक लोग साधारण आदमी की किस अवस्था का लाभ उठाते हैं ?

(iv) 'तुम कब जाओगे अतिथि' पाठ में लेखक की सहनशीलता कब समाप्त हो गई और क्यों ?

(v) भगवाना की माँ के समक्ष क्या समस्या आई ?

६. महात्मा गाँधी के धर्म के सम्बन्धी विचारों पर प्रकाश डालिए ।

७. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए ।

(i) 'रहिमन देखीं बड़ेन को , लघु न दीजिए डारि' - पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या सन्देश दिया है ?

(ii) कवि एक घर पीछे या दो घर आगे क्यों चला जाता है ?

(iii) सुखिया के पिता को दंड देना कहाँ तक न्यायोचित है ?

(iv) 'आदमीनामा' काव्य में कवि ने आदमी के सकारात्मक और नकारात्मक रूपों को किन-किन रूपों में रखा है ?

(v) रैदास ने गरीब निवाजु किसे कहा है ? स्पष्ट कीजिए ।

८. 'अग्निपथ' कविता से कवि क्या सन्देश देना चाहते हैं ?

९. "यह धर्म यात्रा है , चल कर पूरी करूँगा ।" - गांधीजी के इस कथन द्वारा उनके किस चारित्रिक गुण का पता चलता है ?

१०. किन कारणों से लेखक ने चिट्ठियों को कुँ से निकलने का निर्णय किया ?

**खंड - घ**

**(रचना - लेखन)**

११. निम्नलिखित विषय पर अनुच्छेद लिखिए ।

(१) जीवन में लक्ष्य का महत्त्व

संकेत : लक्ष्य की परिभाषा - बिना लक्ष्य जीवन निरर्थक - लक्ष्य का होना कितना आवश्यक - लाभ ।

१२. आपके पड़ोस की बिजली की दुकान में ऊँची आवाज में दिन-रात गाने बजते रहते हैं। इसकी शिकायत अपने क्षेत्र के थानाध्यक्ष को कीजिए ।

१३. घर में काम करने वाली बाई के विषय में दो महिलाओं के बीच के संवाद को लिखिए।

१४. वृक्षों के बचाव हेतु एक विज्ञापन तैयार कीजिए ।

१५. दिए गए चित्र को ध्यान से देखकर मन में उभरे विचारों को अपनी भाषा में ३० से ५० शब्दों में प्रस्तुत कीजिए | विचारों का वर्णन स्पष्ट रूप से चित्र से ही संबद्ध होना चाहिए |

